



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2005/अग्राहायण 8, 1927

No. 487]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2005/AGRAHAYANA 8, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

सं. 100/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 696(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर), ब्राजील और मैक्सिको (जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 4002 के अंतर्गत आने वाले, गांठ के रूप में एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनबीआर या संबद्ध माल भी कहा गया है), के आयात के मामले में, अधिसूचना सं. 14/32/2003-डीजीएडी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 30 मार्च, 2005 में प्रकाशित अपनी अनंतिम जांच परिणाम इस निर्णय पर पहुंचे थे कि—

- (क) संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध माल के पाटन मार्जिन पर्याप्त हैं तथा न्यूनतम से अधिक हैं;
- (ख) घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से की हानि कम क्षमता उपयोग तथा लाभ प्रदत्ता की दृष्टि से वास्तविक क्षति होती है;
- (ग) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव दोनों रूपों में क्षति हुई है;

और संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयात पर अंतिम निर्धारण होने तक, अभिहित प्राधिकारी ने अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 4002 के अंतर्गत आने वाली और संबद्ध देशों में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित, गांठ के रूप में एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर) पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i), तारीख 7 जून, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53/2005-सीमाशुल्क, तारीख 7 जून, 2005 [सा.का.नि. 372(अ), तारीख 7 जून, 2005] द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था।

और अभिहित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 अधिसूचना सं. 14/32/2003-डीजीएडी, तारीख 5 अक्टूबर, 2005 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों तथा तारीख 31 अक्टूबर, 2005 के शुद्धिपत्र के साथ पठित, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- (i) भारत को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का इनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति हुई थी;
- (iii) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव दोनों रूपों में क्षति हुई है;

और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 4002 के अंतर्गत आने वाली और संबद्ध देशों में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित, गांठ के रूप में एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर) के आयात पर निश्चायक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त अन्तिम निष्कर्षों के आधार पर, और भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. 372(अ), तारीख 7 जून, 2005 के तहत प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 53/2005-सीमाशुल्क, तारीख 7 जून, 2005, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जो ऐसे अधिकृत पूर्व की गई है या करने से लोप किया गया है, अधोलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में वर्णित देशों में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तम्भ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तम्भ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तम्भ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तम्भ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तम्भ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	4002	एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील	कोई	मै. प्रेट्रो-फलेक्स, मै. प्रेट्रो-लेक्स ब्राजील	मै. प्रेट्रो-फलेक्स, मै. प्रेट्रो-लेक्स ब्राजील	195.08	मी.ट.	अमरीकी डालर
2.	4002	एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील	कोई	मै. नाइट्रि-फलेक्स, मै. नाइट्रि-फलेक्स ब्राजील	मै. नाइट्रि-फलेक्स, मै. नाइट्रि-फलेक्स ब्राजील	274.51	मी.ट.	अमरीकी डालर
3.	4002	एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील	ब्राजील	उपरोक्त के अलावा कोई	कोई	306.55	मी.ट.	अमरीकी डालर
4.	4002	एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील	कोई	उपरोक्त के अलावा कोई	कोई	306.55	मी.ट.	अमरीकी डालर
5.	4002	एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील के अलावा कोई	ब्राजील	कोई	कोई	306.55	मी.ट.	अमरीकी डालर
6.	4002	एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर)	यूरोपीय संघ जर्मनी को छोड़कर)	कोई	कोई	223.19	मी.ट.	अमरीकी डालर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	4002	एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर)	ब्राजील और मैक्सिको के अलावा कोई	कोई	कोई	223.19 मी.टन	अमरीकी डालर	
8.	4002	एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील और मैक्सिको के अलावा कोई	यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर)	कोई	कोई	223.19 मी.टन	अमरीकी डालर	
9.	4002	एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	मैक्सिको	मैक्सिको	कोई	कोई	304.37 मी.टन	अमरीकी डालर	
10.	4002	एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	मैक्सिको	ब्राजील को छोड़कर कोई	कोई	कोई	304.37 मी.टन	अमरीकी डालर	
11.	4002	एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर (एनबीआर) (पाउडर और कार्बोक्सलेटिड एनबीआर को छोड़कर)	गांठ के रूप में	ब्राजील को छोड़कर कोई	मैक्सिको	कोई	कोई	304.37 मी.टन	अमरीकी डालर	

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को अधिरोपित करने की तारीख यानि कि सात जून, 2005 से प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनिमय दर" वह दर होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और "विनिमय दर" के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/37/2005-टी.आर.यू.]

अजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2005

No. 100/2005-CUSTOMS

G. S. R. 696(E).—Whereas, in the matter of import of acrylonitrile butadiene rubber (NBR) in bale form [excluding powder and carboxylated NBR] (hereinafter referred to as the subject goods), classified under heading 4002 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the European Union (excluding

Germany), Brazil and Mexico (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority *vide* its preliminary findings No. 14/32/2003-DGAD, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 30th March, 2005 had come to the conclusion that :—

- (a) the dumping margins of the subject goods imported from the subject countries are substantial and above de-minimis levels;
- (b) the domestic industry suffers material injury in terms of loss of market share, low capacity utilization and profitability; and
- (c) injury has been caused to the domestic industry both by volume and price effect of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries;

and had recommended imposition of provisional anti-dumping duties, pending final determination, on all imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

And whereas on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on imports of acrylonitrile butadiene rubber (NBR) in bale form [excluding powder and carboxylated NBR], classified under heading 4002 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from the subject countries, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2005-Customs dated the 7th June, 2005 [G.S.R. 372(E) dated the 7th June, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 7th June, 2005.

And whereas the designated authority *vide* its final findings No. 14/32/2003-DGAD, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th October, 2005, read with amendment dated the 31st October, 2005, has come to the conclusion that :—

- (i) the imports of the subject goods from the subject countries have entered Indian market at less than its normal value in the subject countries;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) injury has been caused to the domestic industry cumulatively by volume and price effect of dumped imports of the subject goods from the subject countries;

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of acrylonitrile butadiene rubber (NBR) in bale form [excluding powder and carboxylated NBR], classified under heading 4002 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 53/2005-Customs dated the 7th June, 2005 [G.S.R. 372(E), dated the 7th June, 2005], the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority dated the 5th October, 2005, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading 4002 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act 1975 as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

TABLE

S. No.	Heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	4002	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In Bale form	Brazil	Any	M/s. Petroflex, Brazil	M/s. Petroflex, Brazil	195.08	Metric tonne	US \$

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	4002	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) [excluding powder and carboxylated NBR]	In Bale form	Brazil	Any	M/s. Nitriflex, Brazil	M/s. Nitriflex Brazil	274.51	Metric tonne	US \$
3.	4002	-do-	In Bale form	Brazil	Brazil	Any other than above	Any	306.55	Metric tonne	US \$
4.	4002	-do-	In Bale form	Brazil	Any	Any other than above	Any	306.55	Metric tone	US \$
5.	4002	-do-	In Bale form	Any other than Brazil	Brazil	Any	Any	306.55	Metric tonne	US \$
6.	4002	-do-	In Bale form	European Union except Germany	European Union except Germany	Any	Any	223.19	Metric tonne	US \$
7.	4002	-do-	In Bale form	European Union except Germany	Any other than Brazil and Mexico	Any	Any	223.19	Metric tonne	US \$
8.	4002	-do-	In Bale form	Any other than Brazil and Mexico	European Union except Germany	Any	Any	223.19	Metric tonne	US \$
9.	4002	-do-	In Bale form	Mexico	Mexico	Any	Any	304.37	Metric tonne	US \$
10.	4002	-do-	In Bale form	Mexico	Any excluding Brazil	Any	Any	304.37	Metric tonne	US \$
11.	4002	-do-	In Bale form	Any excluding Brazil	Mexico	Any	Any	304.37	Metric tonne	US \$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty on the subject goods, i.e. the 7th June, 2005 and shall be payable in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, “rate of exchange” applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred under sub-clause (i) of clause (a) of Sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the “rate of exchange” shall be the date of presentation of the “bill of entry” under Section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/37/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

सं. 35/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 697(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम (सं. 2), 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 93 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 537(अ), तारीख 17 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में,—

(i) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) अनुमोदित निर्माण अधिकरण, उक्त माल के उपभोग का स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र के साथ ऐसे मकान निर्माण के लिए प्राप्त किए गए और उक्त प्रयुक्त माल पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रत्यर्पण का दावा, क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी को त्रैमासिक आधार पर, संबंधित तिमाही के समाप्ति के 60 दिन के भीतर पेश करेगा और इस अवधि की क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा अगले 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

3443 45/05-2

(गक) अनुमोदित निर्माण अधिकरण, ऐसे मकानों के समापन के बाद, जिलाधीश द्वारा समापन प्रमाण-पत्र और संबंधित जिला अधिकारी या उप-मण्डल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किसी अधिकार पत्रित इंजीनियर द्वारा सभी प्रत्यर्पण दावों में बताए गए उक्त माल के उपभोग का प्रमाण-पत्र, क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;”;

(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी, स्वयं इस बात पर संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त माल का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है और उक्त माल पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण, और खण्ड (गक) में निर्दिष्ट समापन प्रमाण-पत्र और उपभोग का प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत करने पर ऐसे मकान अथवा मकानों के निर्माण में आई लागत के 6 प्रतिशत के दर से प्रत्यर्पण स्वीकृत करेगा परंतु जिसकी अधिकतम राशि किसी भी मामले में 9 हजार रुपए प्रत्येक निर्मित मकान से अधिक नहीं होगी, तथा”

[फा. सं. 341/2/2005-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना [सं० सा.का.नि. 537(अ), तारीख 17 अगस्त, 2005] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2005

No. 35/2005-Central Excise

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with Section 91 and Section 93 of the Finance Act, (No. 2) 2004 (23 of 2004), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2005-Central Excise, dated the 17th August, 2005, number G.S.R. 537(E), dated the 17th August, 2005, namely :—

In the said notification, in para 3,—

(i) for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(c) The approved construction agency shall, file a claim for refund of the said duties paid on the said goods procured and utilised in construction of such houses by it alongwith a self-certified consumption certificate of the said goods to the jurisdictional excise officer, on a quarterly basis, within sixty days from the end of the relevant quarter and such period may be extended by the jurisdictional excise officer by another sixty days;

(ca) The approved construction agency, on completion of such houses, shall submit a completion certificate from the District Collector alongwith consolidated consumption certificate covering all the earlier refund claims, duly certified by a Chartered Engineer and countersigned by the concerned District Collector or Sub-Divisional Magistrate, to the jurisdictional excise officer;”;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) The jurisdictional excise officer shall, after satisfying himself that the said goods have been used for the specified purposes, and on production of documentary evidence about the duty paid on the said goods, and the completion certificate and the consolidated consumption certificate as specified in clause (ca) above, by the approved construction agency, sanction the refund claim, at the rate of 6% of the cost of construction of such house or houses, as the case may be, subject to a maximum of Rs. 9000 per house constructed; and”

[F. No. 341/2/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide [number G.S.R. 537(E), dated the 17th August, 2005].